

BCM-304
INCOME TAX
आयकर

Bachelor of Commerce (B. Com.-17)

Third Year, Examination-2020

Time Allowed : 2 Hours

Maximum Marks : 80

Note : This paper is of Eighty (80) marks divided into Two (02) sections A and B. Attempt the question contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्न पत्र अस्सी (80) अंकों का है। जो दो (02) खण्डों क तथा ख में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल कीजिए।

Section-A/खण्ड-‘क’

(Long Answer Type Questions/दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note : Section-‘A’ contains Five (05) Long answer type questions of Twenty (20) marks each. Learners are required to answer any two (02) questions only. (2×20=40)

नोट : खण्ड-‘क’ में पाँच (05) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए बीस (20) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. How is residence of assesses determined for income tax purpose ? Explain the incidence of residence on tax liability.

आयकर के उद्देश्य से करदाताओं का निवास कैसे निर्धारित किया जाता है? निवास स्थान का कर दायित्व पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या कीजिए।

2. Define ‘Annual value’ and state the deductions that are allowed from the ‘Annual value’ in computing the income from house property.

‘वार्षिक मूल्य’ को परिभाषित कीजिए और उन कटौतियों का वर्णन कीजिए जो मकान सम्पत्ति से आय की गणना करने में ‘वार्षिक मूल्य’ से स्वीकृत होती है?

3. What are the various types of Capital gains ? Explain the difference between Short-term and Long-term gains.

पूँजी लाभ के विभिन्न प्रकार कौन-कौन से हैं? अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लाभों में अन्तर की व्याख्या कीजिए।

4. Mr. X is working in a Company. He received following facilities, receipts in the previous year:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Net Salary (After deducting contribution and Income tax) | Rs. 4,00,000 |
| Contribution of Mr. X in Provident fund | Rs. 70,000 |
| Employer's contribution in Provident fund | Rs. 75,000 |
| Income tax deducted | Rs. 30,000 |
| 2. Commission on sale @1%
(Sale Rs. 40 lakh) | |
| 3. Salary Advance | Rs. 50,000 |
| 4. Entertainment allowance | Rs. 1,000 per month |
| 5. House Rent Allowance | Rs. 6,000 per month |
| 6. He lives in his house. Fire rent | Rs. 7,000 per month |
| 7. Amount paid by employer on Life Insurance | Rs. 40,000 |
| 8. Professional Tax paid in Previous year | Rs. 2,000 |

Compute Mr. X's taxable income from salary for the assessment year 2919-20.

श्री एक्स एक कम्पनी में काम करते हैं। गत वर्ष 2018-19 में उन्हें निम्नलिखित सुविधाएँ, प्राप्तियाँ प्राप्त हुई हैं:

1. शुद्ध वेतन (अंशदान एवं आयकर रु. 4,00,000 को घटाने के पश्चात)
प्राविडेन्ट फण्ड में श्री एक्स रु. 70,000 का योगदान
प्राविडेन्ट फण्ड में नियोक्ता का रु. 75,000 योगदान
आयकर काटा गया रु. 30,000
2. विक्रय पर कमीशन 1 प्रतिशत की दर से (विक्रय रु. 40 लाख)
3. अग्रिम वेतन रु. 50,000
4. मनोरंजन भत्ता रु. 1,000 प्रति माह
5. मकान किराया भत्ता रु. 6,000 प्रति माह
6. वह अपने मकान में रहता है। रु. 7,000 प्रति माह उचित किराया
7. जीवन बीमा पर नियोक्ता द्वारा रु. 40,000 भुगतान की गयी धनराशि
8. गत वर्ष में भुगतान किया गया रु. 2,000 पेशेवर कर

श्री एक्स की कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए वेतन शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य आय की गणना कीजिए।

5. Z is the owner of a house. The municipal value of the house is Rs. 36,000 and standard rent is Rs. 40,000. This house is hired on rent of Rs. 4,000 per month. He paid the following expenses :

Municipal taxes Rs. 7,000

Repairs Rs. 2,000

Land revenue Rs. 500

Legal expenses for vacating the house Rs. 5,000

Annual charge Rs. 5,000

The house was vacant for two months. Rs. 10,000 could not be recovered from the tenant. He has vacated the house.

Compute his taxable income from house property for the assessment year 2019-20.

जेड एक मकान का स्वामी है। मकान का नगरपालिका मूल्यांकन 36,000 रु. है तथा मानक किराया 40,000 रु. है। यह मकान 4,000 रु. प्रति माह के किराये पर उठाया गया है। उसने निम्न भुगतान किए हैं:

नगरपालिका कर 7,000 रु.

मरम्मत 2,000 रु.

भू-राजस्व 500 रु.

मकान को खाली कराने के लिए कानूनी व्यय 5,000 रु.

वार्षिक भार 5,000 रु.

यह मकान दो माह खाली रहा। किरायेदार से 10,000 रु. वसूल नहीं किये जा सके। किरायेदार ने मकान खाली कर दिया है।

कर-निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए उसकी मकान-सम्पत्ति शीर्षक की आय निकालिए।

Section-B/खण्ड-ख

(Short answer type questions/ लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Section-B Contains Eight (08) Short answer type questions of Ten (10) marks each. Learners are required to answer any four (04) questions only. (4×10=40)

नोट : खण्ड-‘ख’ में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए दस (10) अंक निर्धारित हैं।¹ शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Define the agricultural income with examples.

कृषि आय को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए।

2. What is meant by Perquisite ? Explain.

अनुलाभ से क्या आशय है? समझाइए।

3. Explain various types of Provident Funds.

विभिन्न प्रकार के प्राविडेंट फण्डों की व्याख्या कीजिए।

4. Explain in detail full exempt Capital gains.

पूर्णतया कर मुक्त पूँजी लाभ की विस्तृत व्याख्या कीजिए।

5. How tax is determined under Limited Liability Partnership ? Explain.

सीमित दायित्व साझेदारी के अन्तर्गत कर निर्धारण कैसे होता है? व्याख्या कीजिए।

6. What is Casual Income ? Explain with example.

आकस्मिक आय क्या है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

7. What are expressly allowed expenditure in the head business and profession ? Explain.

व्यवसाय एवं पेशे शीर्षक के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से स्वीकृत व्यय कौन से हैं? व्याख्या कीजिए।

8. What do you understand by Total Income and Gross Total Income ? Explain with example.

कुल आय एवं सकल कुल से आप क्या समझते हैं?
उदाहरण सहित समझाइए।
